

## जनपद बाराबंकी

दिनांक 16.01.2023

जनपद में संदिग्ध व्यक्तियों/वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बाराबंकी पुलिस द्वारा दिनांक 15/16.01.2023 को 01 वारण्टी व कुल 34 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा 43 अभियुक्तों के विरुद्ध शांतिभंग की धाराओं में कार्यवाही की गयी।

01. ➔ थाना जहांगीराबाद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 90 ग्राम अवैध मारफीन बरामद-

थाना जहांगीराबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त सूफियान पुत्र स्व0 मो0 नसीम निवासी मोहल्ला बासा सहादतगंज थाना मसौली जनपद बाराबंकी को आज दिनांक 16.01.2023 को भयारा तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 90 ग्राम अवैध मारफीन बरामद कर थाना जहांगीराबाद पर मु0अ0सं0 12/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

02. ➔ थाना रामसनेही घाट पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 55 ग्राम अवैध स्मैक बरामद-

थाना रामसनेही घाट पुलिस द्वारा अभियुक्त आकाश पाण्डेय पुत्र रामकुमार पाण्डेय निवासी अलागनी का पुरवा कस्बा व थाना रामसनेही घाट जनपद बाराबंकी को आज दिनांक 16.01.2023 को दरियाबाद ओवर ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 55 ग्राम अवैध स्मैक बरामद कर थाना रामसनेही घाट पर मु0अ0सं0 17/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

03. ➔ थाना मो0पुर खाला पुलिस द्वारा गोधन उर्फ सन्तराम हत्याकाण्ड से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

थाना मो0पुर खाला पुलिस टीम द्वारा दिनांक 07.04.2022 को थाना स्थानीय पर जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में गोधन की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 134/2022 धारा 302 भादवि से सम्बन्धित वांछित हत्याभियुक्त टिल्लू उर्फ देवेन्द्र पाल यादव पुत्र राजाराम निवासी बबुरी थाना मो0पुर खाला जनपद बाराबंकी को आज दिनांक 16.01.2023 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित पूर्व में भी तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

04. ➔ थाना फतेहपुर पुलिस ने क्षेत्र की जनता के सहयोग से 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 16.01.2023 को क्षेत्र की जनता के सहयोग से ग्राम गंगौली में महिला के साथ मारपीट कर जबरदस्ती अपनी कार में खींचकर छेड़खानी करना व अपहरण करने का प्रयास कर गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी

देने वाले अभियुक्तगण 1. विक्रम नट पुत्र हाशमी नट 2. रौनी रावत पुत्र राकेश रावत 3. शिव कुमार रावत पुत्र बिश्वेश्वर रावत 4. अंशू रावत पुत्र महेश रावत निवासीगण डिगडिगा थाना चिनहट जनपद लखनऊ को घटना में प्रयुक्त एक अदद वाहन इण्डिका कार यूपी 32 एवाई 938 के साथ गिरफ्तार कर थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 22/2023 धारा 323/504/354/506/364/511 भादवि पंजीकृत कर जेल भेजा गया।

05. ➔ थाना बदोसराय पुलिस ने 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से दान पात्र से चोरी की गए 694 रुपए के सिक्के बरामद-

थाना बदोसराय पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 393/22 धारा 457/380/411 भादवि से सम्बन्धित प्रकाश में आए अभियुक्त विष्णु कश्यप पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम कोटवा धाम थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी को आज दिनांक 16.01.2023 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से दान पात्र से चोरी की गए 694 रुपए के सिक्के बरामद किए गए।

06. ➔ थाना दरियाबाद पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

थाना दरियाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 10/2023 धारा 34/308/452/323/504/435 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1. रामदेव पुत्र गजोधर 2. श्रीराम पुत्र रामअचल निवासीगण ग्राम लालगंज थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी को आज दिनांक 16.01.2023 को गिरफ्तार किया गया ।

07. ➔ थाना देवा पुलिस ने 10 जुआरियों को किया गिरफ्तार-

थाना देवा पुलिस टीम द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआं खेल रहे 10 अभियुक्तगण 1. शिवराज यादव पुत्र गंगाराम 2. मो0 खलील पुत्र मो0 शफीक निवासीगण इसरहना थाना देवा जनपद बाराबंकी 3. नियाज वारिस पुत्र मो0 सलीम 4. मो0 शब्बीर पुत्र नवाब निवासीगण हुज्जाजी थाना देवा जनपद बाराबंकी 5. चन्दू पुत्र मो0 सलीम निवासी मो0 शेख कस्बा व थाना देवा जनपद बाराबंकी 6. मो0 इसरार पुत्र स्व0 अली हसन निवासी महबुल्लापुर थाना मडियाव जनपद लखनऊ 7. मो0 सलीम पुत्र हबीब 8. कमरुद्दीन पुत्र मो0 सैफ 9. सलामू पुत्र उस्मान निवासीगण कुतुलपुर थाना देवा जनपद बाराबंकी 10. मुजीब अहमद पुत्र गुलाम दस्तगीर निवासी हुज्जाजी पूर्वी कस्बा व थाना देवा जनपद बाराबंकी को दिनांक 15.01.2023 को 52 अदद ताश की दो गड्डी, मालफड़ 47650/-रुपये व जामातलाशी 3180/- रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-32,34/2023 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया।

08. ➔ थाना फतेहपुर पुलिस ने 04 जुआरियों को किया गिरफ्तार-

थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआं खेल रहे 04 अभियुक्तगण 1. फुरकान पुत्र मो0 जहूर 2. आदिल पुत्र मो0 साबिर 3. मो0 फहीम पुत्र रसीद 4. आलम पुत्र मो0 शरीफ निवासीगण फैय्याजपुरा थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी को दिनांक 15.01.2023 को 52 अदद

ताश के पते व 780/- रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-20/2023 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया।

09. ➔ थाना कोठी पुलिस ने 02 जुआरियों को किया गिरफ्तार-

थाना कोठी पुलिस टीम द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआं खेल रहे 02 अभियुक्तगण 1. संजीव कुमार पुत्र गोकुल 2. लवकुश पुत्र कौशल किशोर निवासीगण ग्राम मदारपुर थाना कोठी जनपद बाराबंकी को दिनांक 15.01.2023 को 52 अदद ताश के पते व 430/- रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-24/2023 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया।

10. ➔ थाना मो0पुर खाला पुलिस ने 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद-

थाना मो0पुर खाला पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1. लवकुश लोधी पुत्र मनिकचन्द लोधी निवासी कैथा थाना मो0पुर खाला जनपद बाराबंकी 2. बीरबल पुत्र बुद्धू निवासी गोडियन पुरवा थाना मो0पुर खाला जनपद बाराबंकी को दिनांक 15/16.01.2023 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के पास से कुल 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मो0पुर खाला पर मु0अ0सं0 17-18/2023 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

11. ➔ थाना देवा पुलिस ने 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद-

थाना देवा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त रामसजीवन पुत्र दुर्गाप्रसाद निवासी चमरही मोहम्मदपुर थाना देवा जनपद बाराबंकी को दिनांक 15.01.2023 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध थाना देवा पर मु0अ0सं0 33/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।